



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2010 (अग्रहायण 6, 1932)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2010 (AGRAHAYANA 6, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2010

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. 3(15)/1997-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 25/4/2010-ई.ओ.(एस.एम.-I) दिनांक 20 सितम्बर, 2010 के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्रीमती ऊषा माथुर, आई.आर.ए.एस.(74), को दिनांक 20.09.2010 (अपराह्न) से सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के पद पर सहर्ष नियुक्त करती हैं।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

सं. एफ-6(1989)/2006-प्रशा.-I--आर्थिक मामले विभाग के फाईल सं. 13016/3/2010 से जारी आदेश सं. टी-21/2010 दिनांक 15.07.2010 के अनुसरण में श्रीमती उषा सुरेश, आईईएस के एनएफएसजी अधिकारी और निदेशक, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, (योजना आयोग) को फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, मुम्बई में कार्यभार ग्रहण करने के लिए, क्षेत्रीय मूल्यांकन संगठन, मुम्बई से 01.11.2010 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

दिनांक 1 नवम्बर 2010

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. 1(12)/1984-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री ए. मनोहरन को दिनांक 01.11.2010 (पूर्वाह्न से रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) में वेतन बैंड-3 में, 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित पदोन्नति तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

सं. एफ.6(1281)/86-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के पश्चात् श्री एल. पी. सोनकर, वरिष्ठ सलाहकार, योजना आयोग 31 अक्टूबर, 2010 से सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2010

सं. ए-12025/1/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री आर. सी. मीना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) को योजना अयोग में पीबी-3 में रुपये 15,600--39,100/- + रुपये 7,600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में उप-सलाहकार (सामाजिक योजना) के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 25.10.2010 से एक वर्ष तक के लिए या अगले आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति श्री मीना को उप-सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और न ही उप-सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप-सलाहकार ग्रेड में बरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

जी. राजीव, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. ए-12025/1/2009-वि.सा.प्र.(प्र.)--सचिव, श्री महीपाल सिंह, सहायक (तकनीक), विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड को, तारीख 20 अक्टूबर, 2010 पूर्वाह्न से तारीख 19 अप्रैल, 2011 (अपराह्न) तक छः मास की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-2, वेतनमान 9,300--34,800/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 4,600/- रुपए में तदर्थ आधार पर विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में स्थानापन्न रूप में उप-संपादक नियुक्त करते हैं।

2. श्री महीपाल सिंह की उपर्युक्त नियुक्ति से वे न तो उप-संपादक के ग्रेड में अपनी ज्येष्ठता का कोई दावा कर पाएंगे और न ही उनके द्वारा उस पद पर की गई सेवा को उप-संपादक के पद पर उनकी नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--श्री एम. वी. राव, सहायक विधायी परामर्शी जिन्हें दिनांक 30 जुलाई, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी के पद पर 30 जुलाई, 2010 की पूर्वाह्न से नियुक्त किया गया था, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 की पूर्वाह्न से सहायक विधायी परामर्शी के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो गए हैं।

वी. जी. मंगल, अवर सचिव

दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति महोदय, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों को रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड तथा रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन में विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में दिनांक

02 नवम्बर, 2010 की पूर्वाह्न से, तीन माह की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर उप-विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

1. श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास
2. श्री रबिन्द्र कुमार पट्टनायक

2. यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारियों को, किसी भी स्थिति में उप-विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के ग्रेड में न तो नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

वी. जी. मंगल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-32014/1/2004-प्रशा.-I (वि.वि.)--सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर राजभाषा खण्ड में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर कार्यरत श्री रवीन्द्र शर्मा को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के उक्त खण्ड में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन में 29 अक्टूबर, 2010 की पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अधीक्षक (अनुवाद) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 1 नवम्बर 2010

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में इस विभाग की दिनांक 30.07.2010 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2010 की पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों को दिनांक 29.10.2010 की पूर्वाह्न से सहायक विधायी परामर्शी के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है :-

1. श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास
2. श्री रबिन्द्र कुमार पट्टनायक

एम. आर. बीर, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवम्बर 2010

सं. I-18011/5/2002-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मयंक शील चौहान, आई. पी. एस. (ए. जी.-एम. यू. टी. : 1998) को दिनांक 07 सितम्बर, 2001 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

सं. I-18011/3/2010-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :

क्रम सं.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	निशान्त कुमार तिवारी, आई.पी.एस. (बिहार : 2005)	12.12.2007
2.	मनु महाराज, आई.पी.एस. (बिहार : 2005)	22.08.2007
3.	जितेन्द्र राणा, आई.पी.एस. (बिहार : 2005)	22.08.2007
4.	पी. कानन, आई.पी.एस. (बिहार : 2005)	12.12.2007
5.	क्षत्रानिल सिंह, आई.पी.एस. (बिहार : 2005)	12.12.2007
6.	एम. सुनील कुमार नाईक, आई.पी.एस. (बिहार : 2005)	12.12.2007
7.	सुजीत कुमार, आई.पी.एस. (बिहार : 2006)	29.08.2008
8.	सिद्धार्थ मोहन जैन, आई.पी.एस. (बिहार : 2006)	31.10.2009
9.	पंकज कुमार राज, आई.पी.एस. (बिहार : 2006)	29.08.2008
10.	विवेक राज सिंह, आई.पी.एस. (बिहार : 2006)	18.12.2008

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

सं. I-11014/9/2010-आई.पी.एस.-IV--भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखण्ड और जम्मू एवं कश्मीर की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा जम्मू एवं कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए श्री अब्दुल गनी मीर, आई. पी.एस. (झारखण्ड : 1994) को झारखण्ड से जम्मू एवं कश्मीर के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में स्थानांतरित करती है और यह कि इस स्थानांतरण को अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अंतर-संवर्ग स्थानांतरण संबंधी अनुरोधों पर विचार करते समय नजीर के रूप में नहीं माना जाएगा।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

दिनांक 15 नवम्बर 2010

सं. I-18011/9/2010-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :

क्रम सं.	परिवीक्षाधीन भा. पु. से. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	डरडे संजय भास्कर, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2005)	29.08.2008
2.	विवेन्द्र मिश्रा, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2006)	29.08.2008
3.	सुश्री सोनिया खोखर, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2006)	29.08.2008
4.	रंजन कुमार शर्मा, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2006)	29.08.2008
5.	चन्द्र किशोर मीणा, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2006)	18.12.2008

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. 13017/16/2007-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों की सहमति से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डॉ. के. एच. गोविंद राज, भा.प्र.से. (एमएच : 95) का महाराष्ट्र संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में 5 अक्टूबर, 2010 से दो वर्षों की अगली अवधि अर्थात् 4 अक्टूबर, 2012 तक के लिए अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति के विस्तार का अनुमोदन इस निर्देश के साथ करती है के प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर अधिकारी अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2010

सं. ए-12022/2/2005-पीए--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के कार्यालय आदेश संख्या 4/4/2007 सीएस-1 के अनुसरण में राष्ट्रपति, 1997 की चयन सूची के श्री के. बी. अरोड़ा ग्रेड-1 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव) को तदर्थ आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में 1.1.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में चयन ग्रेड (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव) नियुक्त करते हैं।

2. श्री के. बी. अरोड़ा की तदर्थ आधार पर उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(i) तदर्थ नियुक्ति प्रोन्नति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।

नेहजामांग सिमटे, अवर सचिव

सं. ए-12022/2/2005-पीए--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.09.2010 के कार्यालय आदेश संख्या 3/4/2010 सीएस-1 (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में कार्यरत श्री मिथलेश कुमार चयन ग्रेड उप सचिव (2005 की केन्द्रीय चयन सूची संख्या 3709) और श्री के. बी. अरोड़ा चयन ग्रेड उप सचिव, (2005 की केन्द्रीय चयन सूची संख्या 3743) को 22 सितम्बर, 2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 37,400--67,000/- + रु. 8,700/- ग्रेड पे के वेतनमान में वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) नियुक्त करते हैं।

नेहजामांग सिमटे, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. 99 (फा. सं. 50/150/2008-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :--

क्रम सं.	अनुभाग अधिकारी का नाम	अनुभाग अधिकारी के रूप में (तदर्थ) नियुक्ति की तारीख
(सर्वश्री/श्रीमती)		
1.	रणधीर कुमार	01.10.2010 (पूर्वाह)
2.	महादेव सिंह	04.10.2010 (अपराह)
3.	एस. के राय	07.10.2010 (पूर्वाह)
4.	सुश्री आशा गुप्ता	04.10.2010 (पूर्वाह)
5.	सुश्री किरण लाकड़ा	04.10.2010 (पूर्वाह)

2. इन अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति प्रारंभ में 31.12.2010 अथवा अगले आदेशों तक होगी। उपर्युक्त अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित निबंधन तथा शर्तों के अधीन होंगी :--

- अंतःकालीन व्यवस्था होने के कारण, तदर्थ नियुक्तियों से उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- यह तदर्थ व्यवस्था, वरीयता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) से अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. 100(फा. सं. ए. 19014/10/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में, श्री बी. डी. चावला, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) की दिनांक 05.10.2010 को हुई मृत्यु की सूचना देते हुए भारत सरकार खेद प्रकट करती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 102 (फा. सं. ए-19011/16/2010-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री ललिता जॉन, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 74) को वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग में दिनांक 28.10.2010 (अपराह) से तथा अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता प्राप्त

करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव के पदवी सहित रु. 80,000/- (नियत) के वेतनमान में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बो) के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री ललिता जॉन, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 74) की नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), मुम्बई न्यायपीठ (अब प्रधान पीठ, नई दिल्ली को स्थानान्तरित) के समक्ष श्री एम. द्विवेदी, मुख्य आयुक्त (सेवानिवृत्त), द्वारा दायर 2008 की मूल आवेदन सं. 537 के अंतिम परिणाम के अधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2010

सं. 105 : (फा सं. ए-38012/2/2010-प्रशा.-I--राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री के. एस. शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 106 : (फा सं. ए-38013/11/2010-प्रशा.-I--राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्रीमती विमला बक्शी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2010

सं. ए-12011/4/2010-प्रशा. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.09.2010, 04.10.2010 और 26.10.2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-1 (यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को प्रत्येक के सामने लिखी तारीखों से तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल सं.	दिनांक से
सर्वश्री			
1.	उज्ज्वल कुमार	6709	17.09.2010 (पूर्वाह)
2.	रंजीत कुमार सिन्हा	6727	17.09.2010 (पूर्वाह)

2. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में यह पदोन्नति दिनांक 31.05.2011 तक या पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो या अगले आदेशों तक, पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर है।

- (ख) यह तदर्थ नियुक्ति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने या सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ग) तदर्थ नियुक्ति किसी समय, बिना कोई कारण बताए, समाप्त की जा सकती है।
- (घ) यह तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ नामक ओ.ए. सं. 3294/2009 तथा श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत संघ तथा अन्य नामक ओ.ए. सं. 2674/2009 में अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/6/2009-प्रशा. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.08.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/5/2010-सीएस-1 (एस) तथा संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग, व्यय विभाग के दिनांक 26.10.2010 के का. ज्ञा. सं. ए-32015/4/2010-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री हृदयनंद साह को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में दिनांक 26.10.2010 से आरंभ में 31.12.2010 तक या अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायक की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी :--

- (क) कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण यह तदर्थ नियुक्ति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ख) यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें, इन नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-12026/9/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री टी. बेक को पे बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पूर्णतया तदर्थ आधार पर दिनांक 26.10.2010 से और प्रारम्भ में 31 दिसम्बर, 2010

तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. श्री टी. बेक की यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का दावा प्रदान नहीं करेगी तथा इस ग्रेड में अल्पकालिक आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा की गणना अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु नहीं की जाएगी।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2010

सं. ए-32014/4/2010-संवर्ग--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2010 के का.ज्ञा. सं. 6/5/2010-सीएस-1 (एस) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों को तदर्थ आधार पर, उनके नामों के सामने दी गई तारीख से, स्थानापन्न रूप में अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	चयन सूची (सहायक)	प्रोन्नति की तारीख	तैनाती
1.	श्रीमती प्रवीण सूद	सामान्य	1994	06.10.2010 (पूर्वाह्न)	पू.नि.म.नि.
2.	श्रीमती सरिता रानी मित्तल	सामान्य	1994	18.10.2010 (पूर्वाह्न)	पू.नि.म.नि.
3.	श्री एस. एल. पीपल	अ.जा.	1994	01.11.2010 (पूर्वाह्न)	पू.नि.म.नि.

2. ये तदर्थ प्रोन्नतियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

- (i) तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 31.12.2010 या नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
- (ii) ये तदर्थ नियुक्तियाँ, नियुक्त अधिकारियों को उक्त वर्ग में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- (iii) ये तदर्थ नियुक्तियाँ, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) के माध्यम से नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक जारी रहेंगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की दशा में, उन्हें उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख को नियमित अधिकारी (नियमित अनुभाग अधिकारी) उपलब्ध हो जाएंगे अर्थात् जिस तारीख से वे (नियमित अनुभाग अधिकारी) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें आवंटित संबंधित कैडर में कार्यभार संभाल लेंगे।

संजय शंकर, अवर सचिव

दिनांक 8 नवम्बर 2010

सं. ए-32014/8/2010-संवर्ग--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/4/2010-सीएस-I (एस), के अनुसरण में, राष्ट्रपति, पूर्ति प्रभाग के संवर्ग में शामिल, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित सहायक श्री ओंकार नाथ (एस.सी.एस.एल. सं. 392; जन्म तिथि 04.01.1952; श्रेणी सामान्य) को 2008 के लिए चयन सूची (वरीयता कोटा) में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति, भारत संघ के खिलाफ कैलाश चन्द्र द्वारा दायर और उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित कोर्ट केस सं. 13245-60/2005, भारत संघ के खिलाफ सौराष्ट्र सिन्हा द्वारा दायर और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित ओ.ए. सं. 1083/2007 एवं एम ए सं. 1171/2007, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं. 3352/2005 और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 3294/2009 और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में ओ.ए. सं. 2674/2009 के परिणाम के अध्ययन होगी।

संजय शंकर, अवर सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अक्टूबर 2010

सं. ए-45011/3/2010-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जून, 2010, के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/6/2009-सीएस.I(एस) के अनुसरण में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को, जो चयन सूची 1996 (सामान्य), चयन सूची 1997 (अ.जा. श्रेणी) और चयन सूची 1999 (अ.ज.जा. श्रेणी) से संबंध रखते हैं, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर, प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से 31.12.2010 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले होगा, अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	एससीएसएल सं. और सलेक्ट लिस्ट वर्ष	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
1.	68/1996	श्री जे.सी. उप्पल	06.07.2010	भारी उद्योग विभाग
2.	145/1996	श्रीमती कुलदीप कौर	06.07.2010	भारी उद्योग विभाग
3.	215/1996	श्रीमती भवानी किरोला	06.07.2010	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
4.	219/1996	श्री ए.के. ढांड	28.10.2010	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
5.	138/1997	श्री जय प्रकाश (अ.जा.)	08.07.2010	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

उपर्युक्त आदेश की नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और इनसे संबंधित अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उस पद पर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता, आदि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी, जब तक वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के जरिये अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। यदि तदर्थ नियुक्ति वाले अधिकारी इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति की योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर उस तारीख से सहायक के ग्रेड में पदावनत कर दिया जाएगा जिस तारीख से नियमित अनुभाग अधिकारी उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित संबंधित संवर्ग में कार्य ग्रहण कर लेंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 15/1/2010-एएंडएमएमटी--राष्ट्रपति, श्री बी. बालामुरुगन, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, तमिलनाडु सरकार को 15,600--39,100 रुपए (पे बैंड:3) + 7,600/- रुपए ग्रेड पे के वेतनमान में दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 के पूर्वाह्न से 4 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, अनमें से जो भी पहले हो, वस्त्र समिति, मुंबई में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. गोपालन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2010

सं. 22/2010(ए-12026/3/2009-स्था.)--राष्ट्रपति, श्री वी.वी. जनार्दन राव, अनुभाग अधिकारी (प्रशिक्षण), आंध्र प्रदेश सरकार, योजना विभाग, सचिवालय, हैदराबाद को रुपए 9,300--34,800 + 4,800/- ग्रेड पे के पे बैंड 2 में दिनांक 1 नवंबर, 2010 के पूर्वाह्न से वस्त्र राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) के प्रथम व्यक्ति सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री वी. वी. जनार्दन राव की नियुक्ति वस्त्र राज्य मंत्री की सह-अवधि के आधार पर अथवा जब तक वस्त्र राज्य मंत्री चाहेंगे तब तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2010

सं. 38/4/उउसस/2010-प्रशासन--दिनांक 25.10.2010 के माध्यम से सचिव (उर्वरक) के अनुमोदन के परिणामस्वरूप श्री देव कुमार शर्मा, लेखाधिकारी उर्वरक विभाग, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (उउसस) कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि

चौथे वर्ष अर्थात् 28.11.2010 से 27.11.2011 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

एम. दण्डायुधपाणी, निदेशक (प्रशासन)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. टीएफसी/31/2008--भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा-25 और 26 के तहत उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री दिनेश राय, भा.प्र.से. (उ.प्र.:74) (सेवानिवृत्त) को दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्तर्गत भाण्डागार विकास विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

संदीप सक्सेना, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2010

सं. टीएफसी/31/2008--भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा-25 और 26 के तहत उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री करनैल सिंह, भा.प्र.से. (उ.प्र.:75) (सेवानिवृत्त) को पहली नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्तर्गत भाण्डागार विकास विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में रुपए 10,000/- ग्रेड पे के साथ रुपए 37,400--67,000 के पे बैंड में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

संदीप सक्सेना, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 9 नवम्बर 2010

सं. एसएम/01/23/2007--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में पे बैंड-3 में, रुपए 15,600--39,100 ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में उप अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों का सरकारी सेवा से तकनीकी त्यागपत्र उनके नाम के समक्ष दी गई तिथि से सहर्ष स्वीकार करते हैं:--

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	सरकारी सेवा से तकनीकी त्यागपत्र की तिथि
1.	श्री धवारे पंकज महादेव	24.02.2010 (अपराह्न)
2.	श्री नरेन्द्र कुमार मीना	24.02.2010 (अपराह्न)
3.	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	12.04.2010 (अपराह्न)

सुमन के. अग्रवाल, निदेशक

सं. एसएम/01/21/2010--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निम्नलिखित उप अधीक्षक सर्वेक्षकों को अधीक्षक के पद पर पदोन्नति पर उसी संगठन में पे बैंड-03, रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 6,600/- के वेतनमान में इनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	30.08.2010
2.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	27.08.2010

सुमन के. अग्रवाल, निदेशक

सं. एसएम 01/09/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को, उसके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रु. 15,600--39,100/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतन बैंड पीबी-03 के समूह 'क' सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री अनूप श्रीधर	06.07.2010 (पूर्वाह्न)

सुमन के. अग्रवाल, निदेशक

नई दिल्ली-110016, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं. ए-19013/02/2003--प्रशा. 1(ए)--इस विभाग की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "एफ", डा. के.के. द्विवेदी की 16,400--450--20,000/- रु. (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में भारतीय दूतावास, वाशिंगटन, यू.एस.ए. में वैज्ञानिक अताशे के रूप में 01.01.2008 से 26.05.2008 तक प्रतिनियुक्ति की अवधि को नियमित करने के लिए सहर्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19013/02/2003--प्रशा. 1(ए)--इस विभाग की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, रक्षा इलैक्ट्रॉनिकी अनुप्रयोग प्रयोगशाला, रक्षा मंत्रालय (अनुसंधान एवं विकास संगठन), देहरादून के वैज्ञानिक "ई", श्री प्रमोद शुक्ला की 16,400--450--20,000/- रु. (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में भारतीय दूतावास, मास्को में वैज्ञानिक अताशे के रूप में 01.01.2008 से 21.04.2008 तक प्रतिनियुक्ति की अवधि को नियमित करने के लिए सहर्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19013/01/2004--प्रशा.1(ए)--इस विभाग की दिनांक 29 अप्रैल, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिक "एफ", डा. दीपांकर सरकार की 16,400--450--20,000/- रु. (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में भारतीय दूतावास, बर्लिन, जर्मनी में वैज्ञानिक अताशे के रूप में 19.03.2008 से 30.04.2008 तक प्रतिनियुक्ति की अवधि को नियमित करने के लिए सहर्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19013/02/2003--प्रशा.1(ए)--इस विभाग की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वैज्ञानिक "एफ", ग्रेड-IV (5) डा. विरेन्द्र शंकर की 16,400--450--20,000/- रु. (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में भारतीय दूतावास, टोकियो, जापान में वैज्ञानिक अताशे के रूप में 01.01.2008 से 02.05.2008 तक प्रतिनियुक्ति की अवधि को नियमित करने के लिए सहर्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. 15-3/2010-एनटीसीए--राष्ट्रपति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में 22 सितम्बर, 2010 से तैनाती हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन के लिए एतद्वारा राष्ट्रपति की संस्वीकृति सूचित की जाती है। पदों, पे-बैंड तथा भर्ती की पद्धति का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(I) एनटीसीए मुख्यालय

क्र. सं.	पद का नाम	पे बैंड	ग्रेड वेतन (रु.)	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति
1.	उप वन महानिरीक्षक	पे बैंड-4(37,400-67,000/- रु.)	8,900	1	सीएसएस के तहत प्रतिनियुक्ति (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)
2.	सहायक वन महानिरीक्षक	पे बैंड-4(37,400-67,000/- रु.)	8,700	3	सीएसएस के तहत प्रतिनियुक्ति (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)

(II) एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर, गुवाहाटी, तथा बंगलूरु)

पद का नाम	पे बैंड	ग्रेड वेतन (रु.)	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति
सहायक वन महानिरीक्षक	पे बैंड-4(37,400-67,000/- रु.)	8,700	3	सीएसएस के तहत प्रतिनियुक्ति (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)

3. इस पर होने वाले व्यय को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मुख्य शीर्ष 345 (योजना) के अंतर्गत संबंधित वेतन शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

राजेश गोपाल,

एपीसीसीए एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. ए. 35014/4/2010-सीएसएस-V--राष्ट्रपति, हरियाणा राज्य की चिकित्सा अधिकारी डॉ. (श्रीमती) सीमा रानी को दिनांक 11.03.2010 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. ए-12025/24/2009-सीएसएस.III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. रमण टंडन को दिनांक 26.06.2010 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 08 नवम्बर 2010

सं. ए-12025/189/2007-सी.एस.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. मोनिका सारंगल को दिनांक 10 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में वेतनमान (15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन 5,400/- रु. (पीबी-3) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. मोनिका सारंगल को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डा. मोनिका सारंगल दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

ओ.पी. शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2010

सं. 19011/546/2008-स्था-II--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृषि एवं सहकारिता विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान के साथ ग्रेड वेतन 6,600/- रु. (वेतन बैंड-3) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) में सहायक आयुक्त (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन) के पद पर डा. कृष्णा बिहारी की प्रतिनियुक्त अवधि को एक वर्ष के लिए अर्थात् 07 मार्च, 2011 से 06 मार्च, 2012 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. 38011/4/2010-स्था-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप कृषि एवं सहकारिता विभाग के 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान के साथ ग्रेड वेतन 8,700/- (वेतन बैंड-4) में श्री सुखदेव इन्दौरिया, मुख्य निदेशक (सहकारिता) दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2010

सं. ए-19014/2/2002-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री सी.पी. रेड्डी को विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप 'क') की सिफारिशों पर 03.11.2010 के पूर्वाह्न से भूमि संसाधन विभाग में 15,600--39,100/- के वेतन बैंड/वेतनमान तथा 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में उपायुक्त (वाटरशेड विकास) के पद पर छः माह के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 06 अक्टूबर 2010

सं. ए-32011/6/2009-स्थापना.-I--उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नियमित उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) श्री एन. मोहन दास को राष्ट्रपति, इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर पदोन्नति देकर 30.09.2010 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-4 37,400--67,000/- +8,700/- रु. ग्रेड वेतन में निदेशक (तकनीकी) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करती हैं।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 08 नवम्बर 2010

सं. 6136/एनआईसी/2010-प्रशा. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री विनोद कुमार मोणा, (कर्मचारी कोड सं. 6136) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-गुजरात राज्य एकक, गांधीनगर से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड. एसबी, के पद से त्यागपत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. 5785/एनआईसी/2010-प्रशा. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री गोरडन किनसाई नामकीनरिह, (कर्मचारी कोड सं. 5785) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-मिजोरम राज्य एकक, एजवाल से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-एसबी, के पद से त्यागपत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 09 नवम्बर 2010

सं. पीएफ/2809/एनआईसी/2010--प्रशासन-I--श्री पवन तेजपाल, वैज्ञानिक-डी कर्मचारी कोड सं. 2809, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 09.10.2010 को देहांत हो गया है।

आर.एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2010

सं. ईआरबी-1/2010/2/17--राष्ट्रपति जी, श्री प्रमोद उनियाल, एचएजी/भारतीय रेल यातायात सेवा को 19.08.2010 के अपराह्न से 75,500--80,000/- रुपए के ग्रेड में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (सी एंड आई एस), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 8 नवम्बर 2010

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्रीमती सौम्या राघवन, वित्त आयुक्त, रेल एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव 30.09.2010 से स्वीच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (i) श्री ए. के. तिवारी | अपर सदस्य (योजना) |
| (ii) श्री वी. के. नारंग | संयुक्त निदेशक |
| (iii) श्रीमती अंजलि कैन | अनुभाग अधिकारी |

वी. के. गुप्ता, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

(i) श्री ए. के. निगम	अपर सदस्य (पी.यू.)
(ii) श्री मदन लाल	उप निदेशक
(iii) श्री वीरेन्द्र मोहन	अनुभाग अधिकारी
(iv) श्रीमती आर. पी. सेठी	निजी सचिव
(v) श्रीमती राज मुंजाल	निजी सचिव
(vi) श्रीमती पूना	निजी सचिव

वी. के. गुप्ता, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. ई(जी.पी.)2006/3/8--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के यातायात विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारियों की, उल्लिखित रेलवे पर 28.07.2008 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आई. आर. टी. एस.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में, सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

2007-08 के लिए पैनल

अधिकारियों के नाम

दक्षिण पूर्व रेलवे

श्री के. गणेश कुमार

उत्तर पश्चिम रेलवे

श्री अजय कुमार शर्मा

अतः, दिनांक 22.07.2009 की अधिसूचना सं. ई(जी.पी.)2007/3/8 द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा की दिनांक 18.06.2009 से उत्तर रेलवे के वर्ष 2008-09 के पैनल में, भारतीय रेल यातायात सेवा (आई. आर. टी. एस.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में, की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है।

वी. के. गुप्ता, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. ईआरबी-1/2010/2/60--राष्ट्रपति जी, श्री ए. पी. मिश्रा, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा, महाप्रबंधक/दक्षिण पूर्व रेलवे को 08.10.2010 के पूर्वाह्न से सदस्य (इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्ति करते हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. ए-19011/9/2010-स्था.--राष्ट्रपति, श्री वी. के. शर्मा, (सीएसएल सं. 4232) अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-1) को वर्ष, 2010 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन श्रेणी की चुनिंदा सूची में सम्मिलित होने पर, पोत परिवहन मंत्रालय में पे बैंड-3 : रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 7,600/- के वेतनमान में दिनांक 16.08.2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2010

सं. एल एच-21012/1/2010-एस एल--राष्ट्रपति, श्री डी. के. सिन्हा, निदेशक (क्षेत्रीय) को अगले आदेश होने तक, 29 जून, 2010 पूर्वाह्न से दीपघर और दीपपोत महानिदेशालय में वेतनमान रुपए 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रुपए 8,700/ (रुपए 14,300--18,300/- पूर्व संशोधित) में उप महानिदेशक के पद पर पदोन्नति करता है।

एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2010

सं. ए-12033/1/2010-ई-1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.10.2010 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2010-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में, श्री बिजय बिहारी महापात्र, भा.रा.से. (सी एंड सीई-90) को 37,400--67,000/- रुपए के पे बैंड-4 तथा 8,700/- रुपए के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निदेशक के पद पर दिनांक 13.10.2010 (अपराह्न) से दिनांक 03.08.2013 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. 21/2010-मि.सं.ए-35018/1/2008-प्रशा. एक--राष्ट्रपति विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए. एस. बक्शी, मुख्य अभियन्ता, को प्रतिनियुक्ति आधार पर 67,000--79,000/- रुपए के वेतन श्रेणी में भारत सरकार में अवर सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (योजना) पद पर उनके नियुक्ति की तिथि 28.10.2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष के लिए, या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, या अगले आदेशों तक, नियुक्ति करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 21st September 2010

No. 3(15)/1997-Admn.—In pursuance of DoP&T's Communication No. 25/4/2010-EO (SM.I) dated 20th September, 2010, the President is pleased to appoint Smt. Usha Mathur, IRAS (74), as Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, with effect from the afternoon of 20.09.2010.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

The 1st November 2010

No. 1(12)/1984-Admn.—The President is pleased to appoint Shri A. Manoharan, as Deputy Secretary on ad hoc basis for a period of one year or till regular promotion to the grade, whichever is earlier, in the Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 7,600/- w.e.f. forenoon of 01.11.2010

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 28th October 2010

No. F.6(1989)/2006-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-21/2010 dated 15.07.2010 issued from their file No. 13016/3/2010-IES, Smt. Usha Suresh, NFSG officer of IES and Director, Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) will stand relieved from REO, Mumbai w.e.f. 01.11.2010 (FN) to join Forward Markets Commission, Mumbai.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. F.6(1281)/86-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Shri L. P. Sonkar, Senior Adviser, Planning Commission retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 3rd November 2010

No. A-12025/1/2009-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri R. C. Meena, a regular Senior Research Officer (Project Appraisal), Planning Commission against the post of Deputy Adviser (Social Planning) in the Planning Commission in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) on ad hoc basis for a period of one year w.e.f. 25.10.2010 (FN) or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that the above said ad hoc appointment will not bestow on Shri R. C. Meena any right to claim for

regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on ad hoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 28th October 2010

No. A-12025/1/2009-VSP (A)—The Secretary is pleased to appoint Shri Mahi Pal Singh, Assistant (Technical), Ministry of Law and Justice, Legislative Department, O. L. Wing to officiate as Sub-Editor on ad hoc basis in the Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice in the Pay Band-2, with the Scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- for a period of six months w.e.f. 20th October, 2010 (FN) to 19th April, 2011 (AN) or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Shri Mahi Pal Singh will neither bestow on his any claim for his seniority in the grade of Sub-Editor nor the service rendered by him as such counted for his appointment in the post of Sub-Editor on regular basis.

KULDEEP KUMAR, Director

New Delhi, the 22nd October 2010

No. A-12025/1/2007-Admn.I (L.D.)—Shri M. V. Rao, Assistant Legislative Counsel who was appointed to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) on ad hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 30th July, 2010 vide this Department's Notification of even number dated 30th July, 2010 stands reverted to his substantive post of Assistant Legislative Counsel with effect from the forenoon of 21st October, 2010.

V. G. MANGAL, Under Secy.

The 2nd November 2010

No. A-12025/1/2007-Admn.I (L.D.)—The President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the

forenoon of 2nd November 2010 and until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Ramisetty Sreenivas
2. Shri Rabindra Kumar Pattanayak

2. This ad hoc appointment will not bestow on the above mentioned officers any claim for regular appointments whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the ad hoc services rendered by them will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

V. G. MANGAL, Under Secy.

New Delhi, the 29th October 2010

No. A-32014/1/2004-Admn.I (LD)—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice is pleased to appoint Shri Ravindra Sharma, Senior Translator in the Official Languages Wing to the post of Superintendent (Translation) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice on regular basis w.e.f. the forenoon of 29th October, 2010 and until further orders.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 1st November 2010

No. A-12025/1/2007-Admn.I (L. D.)—The following Assistant Legislative Counsels who were appointed to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) on ad hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 30th July, 2010 vide this Department's Notification of even number dated 30.07.2010 stands reverted to their substantive posts of Assistant Legislative Counsel with effect from the forenoon of 29.10.2010 :—

1. Shri Ramisetty Sreenivas
2. Shri Rabindra Kumar Pattanayak

M. R. BEERH, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 9th November 2010

No. I-18011/5/2002-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Mayank Sheel Chohan, IPS (AGMUT : 1998), in the Indian Police Service with effect from the 7th September 2001.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/3/2010-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation)

Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Bihar with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Nishant Kumar Tiwary, IPS (BH : 2005)	12.12.2007
2.	Manu Maharaj, IPS (BH : 2005)	22.08.2007
3.	Jitender Rana, IPS (BH : 2005)	22.08.2007
4.	P. Kannan, IPS (BH : 2005)	12.12.2007
5.	Kshatranil Singh, IPS (BH : 2005)	12.12.2007
6.	M. Sunil Kumar Naik, IPS (BH : 2005)	12.12.2007
7.	Sujeet Kumar, IPS (BH : 2006)	29.08.2008
8.	Sidhartha Mohan Jain, IPS (BH : 2006)	31.10.2009
9.	Pankaj Kumar Raj, IPS (BH : 2006)	29.08.2008
10.	Vivek Raj Singh, IPS (BH : 2006)	18.12.2008

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-11014/9/2010-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Jharkhand and Jammu & Kashmir, the Central Government hereby transfers Shri Abdul Gani Mir, IPS (Jharkhand : 1994) from Jharkhand to the IPS Cadre of Jammu & Kashmir in relaxation of the existing guidelines in view of the special circumstances of Jammu and Kashmir. This shall not be treated as a precedence while dealing with requests of inter-cadre transfer of AIS officers.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

The 15th November 2010

No. I-18011/9/2010-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Maharashtra with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Darade Sanjay Bhaskar, IPS (MH : 2005)	29.08.2008
2.	Virendra Mishra, IPS (MH : 2006)	29.08.2008
3.	Ms. Sonia Khokhar, IPS (MH : 2006)	29.08.2008
4.	Ranjan Kumar Sharma, IPS (MH : 2006)	29.08.2008
5.	Chandra Kishore Mina, IPS (MH : 2006)	18.12.2008

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &
PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 20th October 2010

No. 13017/16/2007-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Maharashtra and Karnataka, the Central Govt. hereby accords approval for extension of inter cadre deputation of Dr. K.H. Govinda Raj, IAS (MH : 95) from Maharashtra cadre to Karnataka cadre for a further period of two years with effect from October 5, 2010 i.e. till Oct. 4, 2012 with the direction that on expiry of the period of deputation the officer shall stand reverted to his parent cadre.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 8th November 2010

No. A-12022/2/2005-PA—In pursuance of Department of Personnel and Training Office Order No. 4/4/2007-CS.I dated 14.12.2007 the President is pleased to appoint Shri K.B. Arora, Grade-I (Under Secretary of CSS) of Select List 1997 to the Selection Grade (Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Overseas Indian Affairs, on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16500/- with effect from 01.01.2008 (FN) and till further orders.

2. The aforesaid appointment of Shri K. B. Arora on ad-hoc basis is subject to the following conditions :—

(i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS;

(ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

No. A-12022/2/2005-PA—In pursuance of Department of Personnel and Training Office Order No. 3/4/2010-CS.I(D) dated 21.09.2010 the President is pleased to appoint Shri Mithlesh Kumar, Selection Grade Deputy Secretary, CSL No. 3709 of 2005 and Shri K.B. Arora, Selection Grade, Deputy Secretary CSL No. 3743 of 2005 of CSS in the Ministry of Overseas Indian Affairs, as Senior Selection Grade (Director) in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay 8,700/- with effect from 22.09.2010 (FN) and till further orders.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th October 2010

No. 99 : (F. No. 50/150/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint the following regular Assistants of the Finance Cadre of the Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of the CSS on ad hoc basis in the Department Revenue w.e.f. the date shown against the name of each officer and until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of joining as Section Officer (Ad hoc)
	S/Shri/Ms.	
1.	Randhir Kumar	01.10.2010(FN)
2.	Mahadev Singh	04.10.2010(AN)
3.	S. K. Roy	07.10.2010(FN)
4.	Asha Gupta (Ms.)	04.10.2010(FN)
5.	Kiran Lakra (Ms.)	04.10.2010(FN)

2. The ad hoc promotion of these officers would initially be upto 31.12.2010 or until further orders. The ad hoc appointment of above Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

(i) Ad hoc appointments being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade;

(ii) Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer Grade available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further order.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 25th October 2010

No. 100 : (F. No. A-19014/10/2010-Ad.I)—The Government of India regrets to notify the death of Shri B. D. Chawla, Section Officer (Ad-hoc) in the Department of Revenue on 05.10.2010.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 29th October 2010

No. 102 : (F. No. A-19011/16/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Lalitha John, IRS (C&C : 74) as Member of the Central Board of Excise and Customs (CBEC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the

status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 28.10.2010 (AN) and until further orders or her superannuation, whichever is earlier.

2. The appointment of Ms. Lalitha John, IRS (C&CE : 74), as Member, CBEC is subject to the final outcome of the 'Original Application No. 537 of 2008 filed by Shri M. Dwivedi, Chief Commissioner (Retd.) before the Central Administrative Tribunal (CAT), Mumbai Bench (now transferred to the Principal Bench, New Delhi).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 3rd November 2010

No. 105 : (F. No. A-38012/2/2010-Ad.I).—Shri K.S. Sharma, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Director in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st October 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 106 : (F. No. A-38013/11/2010-Ad.I).—Smt. Vimla Bakshi, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Under Secretary in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st October 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 8th November 2010

A. 12011/4/2010—In pursuance of Department of Personnel & Trainings Order No. 5/3/2010-CSI(U) dated 03.09.2010, 04.10.2010 and 26.10.2010, the President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis with effect from the dates mentioned against each.

S. No.	Name of Officer	CSL No.	With effect from
	S/Shri		
(i)	Ujjwal Kumar	6709	17.09.2010 (FN)
(ii)	Ranjeet Kumar Sinha	6727	17.09.2010 (FN)

2. The aforesaid ad hoc promotion is subject to the following conditions:—

- Promotion to Grade I (Under Secretary) of CSS are purely on ad hoc basis for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier or until further orders.
- The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the

Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.

- Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the O.A. No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs UoI and O.A. No. 2674/2009 titled Shri P.S. Bhandari Vs UoI & Ors. pending before the CAT, New Delhi.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

No. A-12011/6/2009-Admn.II—In pursuance of O.M.No. 6/5/2010-CS.I(S), dated 30.08.2010 of Department of Personnel & Trainings O.M. No. A-32015/4/2010-CAS, dated 26.10.2010 of Cadre Administrative Section, Department of Expenditure, the President is pleased to appoint Shri Hriday Nand Sah, Assistant of CSS Cadre, as Section Officer on ad hoc basis w.e.f. 26.10.2010 in the Pay Band of PB-2: Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs initially upto 31.12.2010 or until further orders.

2. The ad hoc appointment of the above Assistant as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:—

- Ad hoc appointments, being a stopgap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS.
- Ad hoc arrangement will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these two categories, he will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officers from the date he (Regular Section Officer) join duty.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 29th October 2010

No. A-12026/9/2010-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri T. Beck, Permanent Assistant of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the grade of Section Officer of the CSS in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) on purely ad hoc basis w.e.f. 26.10.2010 initially upto 31st December, 2010 or till regular incumbents become available, or till further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion of Shri T. Beck will not bestow on him any claim for regular appointment and services rendered by him on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 4th November 2010

No. A-32014/4/2010-Cadre—In pursuance to DoP&T's Office Memorandum No. 6/5/2010-CS.I(S), dated August 30, 2010, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS to officiate as Section Officer on ad hoc basis, with effect from the dates mentioned against their names :

S. No.	Name	Category	Select List (Assistant)	Date of promotion	Posting
1.	Smt. Parveen Sood	Gen.	1994	06.10.2010 (FN)	DGS&D
2.	Smt. Sarita Rani Mittal	Gen.	1994	18.10.2010	DGS&D
3.	Shri S. L. Pipal	SC	1994	01.11.2010 (FN)	DGS&D

2. The ad hoc promotion is subject to following conditions :—

- The period of ad hoc promotion would be upto 31.12.2010 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier;
- The ad hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- Ad hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability or such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by DoP&T.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

The 8th November 2010

No. A-32014/8/2010-Cadre—In pursuance to DoP&T's Office Memorandum No. 6/4/2010-C.S.-I(S), dated July 26, 2010, the President is pleased to appoint Shri Onkar Nath (SCSL No. 392; DoB : 04.01.1952; CAT : Gen), a regular Assistant of CSS born on the cadre of Supply Division to the Grade of Section Officer of CSS against Select List (Seniority Quota) for 2008.

2. The above promotion is subject to outcome of Court case No. 13245-60/2005, filed by Kailash Chander Vs. UoI, pending in high Court, Delhi, Case No. OA 1083/2007 & MA

No. 1171/2007, filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UoI, pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &
PROMOTION

New Delhi, the 2nd October 2010

No. A.45011/3/2010/E.I—In pursuance of the Department of Personnel & Trainings O.M. No. 6/6/2009-CS.I(S) dated the 7th June 2010, the following Assistants of the CSS Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), belonging to the Select List of 1996 (General), Select List of 1997 (SC Category) and Select List of 1999 (ST Category) are promoted to the grade of Section Officer on purely ad hoc basis in the CSS Cadre of this Department with effect from the date indicated against each for a period upto 31.12.2010 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

Sl. No.	SCSL No. & Select List year	Name	Date of appointment	Place of posting
1.	68/1996	Shri J. C. Uppal	06.07.2010	Deptt. of H.I.
2.	145/1996	Smt. Kuldip Kaur	06.07.2010	Deptt. of H.I.
3.	215/1996	Smt. Bhawani Kirola	06.07.2010	D/IPP
4.	219/1996	Shri A. K. Dhand	28.10.2010	D/IPP
5.	138/1997	Shri Jai Prakash(SC)	08.07.2010	D/IPP

The appointments ordered above have been made purely on ad hoc basis and do not confer any right upon the officers to continue in the same post indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officer for regular appointment or to claim seniority etc. in the Section Officers Grade of CSS. The ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination. In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre allotted to them by DoP&T.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 29th October 2010

No. 15/1/2010-A&MMT—The President is pleased to appoint Shri B. Balamurugan, Joint Registrar of Co-op. Societies, Govt. of Tamil Nadu as Secretary, Textiles Committee, Mumbai in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB : 3) plus

Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 1st October, 2010 for a period of 4 years or until further orders, whichever is earlier.

P. GOPALAN, Under Secy.

New Delhi, the 3rd November 2010

No. 22/2010 (A-12026/3/2009-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri V. V. Janardhana Rao, Section Officer (Training), Government of Andhra Pradesh, Planning Department, Secretariat, Hyderabad as First PA to Minister of State for Textiles (Smt. Panabaaka Lakshmi) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-, with effect from the forenoon of 1st November, 2010.

2. The appointment of Shri V. V. Janardhana Rao will be on co-terminus basis or upto the period as desired by Minister of State for Textiles or until further orders, whichever is earlier.

BALBIR SINGH, Under Secy.

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS
(DEPTT. OF FERTILISERS)**

New Delhi, the 1st November 2010

No. 38/4/FICC/2010-Admn.—Consequent upon approval of Secretary (Fertilizer), Department of Fertilizer dated 25.10.2010, deputation period of Sh. Dev Kumar Sharma, Accounts Officer, Department of Fertilizers, office of the Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) is extended for the fourth year i.e. 28.11.2010 to 27.11.2011 or till further order, whichever is earlier.

M. DANDAYUDHAPANI, Director (Admn.)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)**

New Delhi-1, the 29th October 2010

No. TFC/31/2008—In pursuance of the provisions contained under section 25 and 26 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Rai, IAS (UP : 74) (Retd.) as Chairman of the Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) under the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 27th October, 2010 in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) for a term of five years or till he attains the age of 65 years whichever is earlier.

SANDEEP SAXENA, Under Secy.

The 3rd November 2010

No. TFC/31/2008—In pursuance of the provisions contained under section 25 and 26 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007, the President is pleased to appoint Shri Karnail Singh, IAS (UP : 75) (Retd.) as

Member of the Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) under the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 1st November, 2010 in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- for a term of five years or till he attains the age of 65 years whichever is earlier.

SANDEEP SAXENA, Under Secy.

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)**

New Delhi-110016, the 9th November 2010

No. SM/01/23/2007—The President is pleased to accept the technical resignation in respect of the following Deputy Superintending Surveyors appointed in PB-3 of Rs. 15,600—39,100 + GP of Rs. 5,400/- in Survey of India with effect from the date(s) as mentioned against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Technical Resignation
1.	Shri Dhaware Pankaj Mahadev	24.02.2010(A/N)
2.	Shri Narendra Kumar Meena	24.02.2010(A/N)
3.	Shri Upendra Kumar Singh	12.04.2010(A/N)

SUMAN K. AGRAWAL, Dir.

No. SM/1/21/2010—The President is pleased to appoint the following Deputy Superintending Surveyors in Survey of India to the post of Superintending Surveyor in PB-3 of Rs. 15,600—39,100 + GP Rs. 6,600/- in that Department on regular basis with effect from the date(s) as shown against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment
1.	Shri Rajiv Kumar Srivastava	30.08.2010
2.	Shri Dharmendra Kumar Singh	27.08.2010

SUMAN K. AGRAWAL, Dir.

No. SM/01/09/2010—The President is pleased to appoint the following officer as Deputy Superintending Surveyor, Group 'A' Service in the Pay Band-3, of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- w.e.f. the date mentioned against his name and until further orders :—

Name of the Officer	Date of Appointment
Shri Anoop Sridhar	06.07.2010(F/N)

SUMAN K. AGRAWAL, Dir.

New Delhi-110016, the 26th October 2010

No. A-19013/02/2003-Admn. I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 07th November, 2007, the President is pleased to convey ex-post facto sanction to regularize the term of deputation of Dr. K. K. Dwivedi, the then Scientist 'F', Department of Science & Technology as Scientific Attache in the Embassy of India, Washington, USA in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- (pre-revised) w.e.f. 01.01.2008 to 26.05.2008.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A-19013/02/2003-Admn. I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 07th November, 2007, the President is pleased to convey ex-post facto sanction to regularize the term of deputation of Shri Pramod Shukla, Scientist 'E', Defence Electronics Applications Laboratory, Ministry of Defence (R&D Orgn.), Dehradun as Scientific Attache in the Embassy of India, Moscow in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- (pre-revised) w.e.f. 01.01.2008 to 21.04.2008.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A-19013/01/2004-Admn. I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 29th April, 2004, the President is pleased to convey ex-post facto sanction to regularize the term of deputation of Dr. Dipankar Sarkar, Scientist 'F', National Geophysical Research Institute, Hyderabad as Scientific Attache in the Embassy of India, Berlin, Germany in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- (pre-revised) w.e.f. 19.03.2008 to 30.04.2008.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A-19013/02/2003-Admn. I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 07th November, 2007, the President is pleased to convey ex-post facto sanction to regularize the term of deputation of Dr. Virendra Shankar, Scientist 'F', GR. IV (5), National Physical Laboratory, New Delhi as Scientific Attache in the Embassy of India, Tokyo, Japan in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- (pre-revised) w.e.f. 01.01.2008 to 02.05.2008.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(NATIONAL TIGER CONSERVATION AUTHORITY)

New Delhi-110011, the 22nd October 2010

No. 15-3/2010-NTCA—Sanction of the President is hereby conveyed for creation of the following posts for manning the National Tiger Conservation Authority with effect from

22nd September, 2010, with designations, Pay Band(s) and mode of recruitment as detailed below :—

(I) NTCA HEADQUARTER

Sl. No.	Name of Post	Pay Band	Grade Pay (Rs.)	No. of Posts	Mode of Recruitment
1.	Dy. Inspector General of Forests	PB-4 (Rs. 37,400— 67,000/-)	8,900/-	1	Deputation under CSS (MoEF)
2.	Asstt. Inspector General of Forests	PB-4 (Rs. 37,400— 67,000/-)	8,700/-	3	Deputation under CSS (MoEF)

(II) NTCA REGIONAL OFFICES (NAGPUR, GUWAHATI AND BANGALORE)

Name of Post	Pay Band	Grade Pay (Rs.)	No. of Posts	Mode of Recruitment
Asstt. Inspector General of Forests	PB-4 (Rs. 37,400— 67,000/-)	8,700/-	3	Deputation under CSS (MoEF)

2. The expenditure will be debited to relevant salary head under Major Head 3451 (Plan) of the Ministry of Environment & Forests.

RAJESH GOPAL, APCCF & Member Secy. (NTCA)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-11, the 10th November 2010

No. A-35014/4/2010-CHS. V.—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Seema Rani Medical Officer of Govt. of Haryana to the post of Medical Officer in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in the General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service on regular basis w.e.f. the forenoon of the 11.03.2010.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 11th November 2010

No. A-12025/24/09-CHS. III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Raman Tandon to the post of Assistant Professor in the speciality of Plastic Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 26.06.2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FW

New Delhi-110011, the 8th November 2010

No. A-12025/189/2007-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Monika Sarangal to the Medical Officer's Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in PB-3, in a temporary capacity with effect from forenoon of the 10th February, 2009 until further orders. Dr. Monika Sarangal is posted as Medical Officer under Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi. Dr. Monika Sarangal shall be on probation for two years from the date of appointment.

O. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 25th October 2010

No. 19011/546/2008-E. II—With the approval of the competent authority, the deputation period of Dr. Krishna Bihari, on the post of Assistant Commissioner (Integrated Nutrient Management) in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/- (PB-3), (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Agriculture and Cooperation is extended for one year w.e.f. 7th March, 2011 to 6th March, 2012 or until further orders whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 38011/4/2010 E.-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Sukh Deo Indoria Chief Director (Cooperation) in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 8,700/- (PB-4) in the Department of Agriculture & Cooperation, stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

K. SANJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 12th November 2010

No. A-19014/2/2002-Admn.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group 'A'), the President is pleased to appoint Dr. C. P. Reddy in the Department of Land Resources as Deputy Commissioner (Watershed Development) on ad-hoc basis for six months or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier with effect from the forenoon of 03.11.2010, in the Pay Band/Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-.

ANOOP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 6th October 2010

No. A-32011/6/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Shri N. Mohan Das, a regular Deputy Educational

Adviser (Technical) in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, to the post of Director (Technical) (General Central Service, Group 'A' Gazetted) in the same Ministry, in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- Grade Pay with effect from the forenoon of 30.09.2010 on promotion on regular basis.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 3rd November 2010

No. 6136/NIC/2010-Adm-II.—Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Shri Vinod Kumar Meena (Emp. Code No. 6136), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Gujarat State Centre, Gandhinagar, with effect from the afternoon of 11.10.2010 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

The 9th November 2010

No. 5785/NIC/2010-Adm.-II.—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Gordon Kynsai Nongkynrih (Emp. Code No. 5785), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB, National Informatics Centre, Mizoram State Centre, Aizawl, with effect from the afternoon of 08.10.2010 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

New Delhi-110003, the 9th November 2010

No. PF/2809/NIC/2010-Adm. I.—Shri Pawan Tejpal, Scientist 'D', Emp. Code No. 2809, National Informatics Centre Hqrs, New Delhi has expired on 09.10.2010.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm.-I)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th September 2010

No. ERB-I/2010/2/17—The President is pleased to appoint Shri Pramod Uniyal, HAG/IRTS, as Additional Member (C&IS), Railway Board on promotion in Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from afternoon of 19.08.2010.

V. K. GUPTA, Secy.
{Rly. Board}

The 8th November 2010

No. ERB-I/2007/10/4—Smt. Sowmya Raghavan, Financial Commissioner/Railways and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired voluntarily from service with effect from 30.09.2010.

V. K. GUPTA, Secy.
(Rly. Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.08.2010 :—

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (i) Shri A. K. Tiwari, | Addl. Member (Planning) |
| (ii) Shri V. K. Narang, | Joint Director |
| (iii) Smt. Anjali Kain, | Section Officer |

V. K. GUPTA, Secy.
(Rly. Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.10.2010 :—

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| (i) Shri A. K. Nigam, | Addl. Member (PU) |
| (ii) Shri Madan Lal, | Deputy Director |
| (iii) Shri Virender Mohan, | Section Officer |
| (iv) Smt. R. P. Sethi, | Private Secretary |
| (v) Smt. Raj Munjal, | Private Secretary |
| (vi) Smt. Poona, | Private Secretary |

V. K. GUPTA, Secy.
(Rly. Board)

The 10th November 2010

No. E(GP)2006/3/8—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways, to Group 'A'/Jr. Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS) with effect from 28.07.2008 on the Railways mentioned as under :—

PANEL FOR 2007-08

Name of the Officer
South Eastern Railway
Shri K. Ganesh Kumar
North Western Railway
Shri Ajay Kumar Sharma

Accordingly, the appointment of Shri Ajay Kumar Sharma to Group 'A'/Jr. Scale of IRTS w.e.f. 18.06.2009 against the

panel of North Western Railway for the vacancy year 2008-09 ordered vide Notification No. E(GP)2007/3/8 dt. 22.07.2009 is hereby cancelled.

V. K. GUPTA, Secy.
(Rly. Board)

The 11th November 2010

No. ERB-I/2010/2/60—The President is pleased to appoint Shri A. P. Mishra, IRSE, General Manager, South Eastern Railway as Member (Engineering), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India with effect from forenoon of 08.10.2010.

V. K. GUPTA, Secy.
(Rly. Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 2nd November 2010

No. A-19011/9/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, (CSL No. 4232), Under Secretary (Grade-I of Central Secretariat Service) as Deputy Secretary in the Ministry of Shipping on regular basis w.e.f. 16.08.2010 (FN) in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select Lists of CSS for the year 2010.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 3rd November 2010

No. LH-21012/1/2010-SL—The President is pleased to promote Shri D. K. Sinha, Director (Regional) to the post of Deputy Director General in the scale of pay Rs. 37,400—67,000 + GP Rs. 8,700/- (Rs. 14,300—18,300/- pre-revised) in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 29th June, 2010, until further orders.

S. K. GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 2nd November 2010

No. A-12033/1/2010-E-I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 1/1/2010-EO(MM-I) dated 09.10.2010, the President is pleased to appoint Shri Bijoy Bihari Mohapatra, IRS (C&CE-90) as Director in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- Grade Pay for a period upto 03.08.2013 w.e.f. 13.10.2010 (A.N.) or until further orders, whichever event takes place earlier.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 10th November 2010

No. 21/2010 (F. No. A-35018/1/2008-Adm. I.)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 70 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Shri A. S. Bakshi, Chief Engineer, to the post of Member (Planning) in the Central Electricity

Authority in the scale of pay of Rs. 67,000—79,000/- with the ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, on deputation basis for a period of five years with effect from 28.10.2010 (F/N), or till the date of superannuation, or until further orders, whichever is the earliest.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.